

भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय,
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल



Website: www.bsgmp.net E-mail: bsgmadhyapradesh@gmail.com Phone : 2661263, Fax: 2737446

क्र० / 112 / रा०मु० / गति / एडवेंचर / 2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 7/4 / 2017

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास पदेन जिला कमिश्नर (स्काउट / गाइड) जिला
2. सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड) भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश संभागीय कार्यालय.....

विषय:- मध्यप्रदेश स्टेट एडवेंचर प्रोग्राम अमरकंटक (अनुपपुर) ।

सन्दर्भ :- प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम 2017-2018

-0-


भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश की प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम अनुसार मध्यप्रदेश स्टेट एडवेंचर दिनांक 8 से 12 मई 2017 तक संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र अमरकंटक जिला अनुपपुर में किया जा रहा है । प्रस्तावित वार्षिक योजना अनुसार प्रत्येक जिले से कम से कम 50 युवाओं को एडवेंचर गतिविधि में अनिवार्य रूप से सम्मिलित कराया जाना है । यह सभी शासकीय / अशासकीय विद्यालयों के कम स्काउट-गाइड, रोवर-रेंजर तथा अन्य विद्यार्थियों एवं समूह के लिये खुला है । मध्यप्रदेश स्टेट एडवेंचर प्रोग्राम में भाग लेने वाले को ही नेशनल एडवेंचर में भाग लेने की पात्रता होगी । अतः निम्न सूचनाओं के साथ प्रतिभागियों के आवेदन दिनांक 20 अप्रैल 2017 तक संभाग के माध्यम से अनिवार्य से भेजे ।

मध्यप्रदेश स्टेट एडवेंचर प्रोग्राम संबंधी अन्य जानकारी निम्नानुसार है-

| | | |
|---|---------------|---|
| 1 | कार्यक्रम | मध्यप्रदेश स्टेट एडवेंचर प्रोग्राम अमरकंटक जिला अनुपपुर (म०प्र०) |
| 2 | अवधि | दिनांक 8 से 12 मई 2017 तक |
| 3 | स्थान | संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र अमरकंटक जिला अनुपपुर (म०प्र०) |
| 4 | उपस्थिति | दिनांक 8 मई 2017 को दोपहर 12 बजे तक |
| 5 | वापसी | दिनांक 12 मई 2017 को दोपहर भोजन के पश्चात् |
| 6 | आयु | 12 वर्ष से अधिक आयु के स्काउट-गाइड, रोवर-रेंजर भाग ले सकेंगे |
| 7 | शुल्क | पंजीयन शुल्क रूपये 100/- प्रति सदस्य आवेदन के साथ विकास-विशेष शुल्क रू० 150/- प्रति सदस्य शिविर शुल्क रूपये 900/- प्रति सदस्य कुल योग राशि रूपये 1150/- प्रति सदस्य |
| 8 | कार्यक्रम | शिविर कार्यक्रम प्रथम दिन से अंतिम दिन तक रहेगा जिसमें ट्रेकिंग, ओवरस्टिकल, माउटेनियरिंग, कैंपिंग, स्टार गेजिंग, रेपिलिंग, रीवर क्रॉसिंग, ओवरनाईट हाईक बिना बर्तन के भोजन बनाना तथा अन्य सांनिधिक गतिविधियां शामिल हैं |
| 9 | शिविर सामग्री | प्रत्येक प्रतिभागी को निम्नांकित सामग्री अपने साथ लाना है - 02 पारशूट साईज कलर फोटो, वाटर बॉटल, लंच वाक्स, प्लेट, ग्लास या भाग, चम्मच, टार्च, चाकू, मोमबत्ती, माचिस, नोट बुक, पेन, फर्स्टएड किट, बैंडेड, वोरशेडिंग, कोल्ड क्रीम, वाटर, प्युरीफाइंग गोली, ओडोमाँस, टॉयलेट सामग्री । रूक शैक, चादर, हंटर या स्पोर्ट्स जूते, अतिरिक्त मोजे, वाटर प्रूफ शीट 6X3, स्लीपिंग बैक या कम्बल, सर्दी के कपड़े, पूरी बाँहों की टी शर्ट, या कलर या नेव्ही ब्ल्यू पेंट या जींस, स्काउट व गाइड पूरी यूनिफार्म साथ आने । (स्काउट / गाइड / रोवर / रेंजर हेतु अनिवार्य) |

| | | | |
|----|-------------|---|--|
| 10 | सुरक्षा | | यद्यपि भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश प्रतिभागियों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर रहा है लेकिन किसी भी अनहोनी या दुर्घटना के लिये भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश जिम्मेदार नहीं होगा । प्रतिभागी के साथ आने वाले अध्यापकों की पूर्ण जिम्मेदारी है कि वे शिविर से पहले शिविर के बीच व शिविर के बाद अपने साथियों का पूर्ण ध्यान रखें । |
| 11 | नोट | 1 | प्रत्येक प्रतिभागी को अपनी चिकित्सा जाँच पूर्ण रूप से करानी चाहिये ताकि वे सारी गतिविधियों में भाग ले सकें, इसका प्रमाण-पत्र प्रार्थना पत्र के साथ ही भेजा जावे । जन्म प्रमाण-पत्र बोर्ड की अंकसूची की कापी लगाना अनिवार्य है । |
| | | 2 | एस्कोटिंग अध्यापक को भी शिविर शुल्क व पंजीयन शुल्क देना होगा । शिविर प्रार्थना पत्र के साथ चिकित्सा प्रमाण-पत्र व 02 पासपोर्ट साइज फोटो जमा कराना होगा । तथा उन्हें हर समय प्रतिभागियों के साथ रहना होगा । |
| | | 3 | प्रवेश प्रार्थना पत्र, चिकित्सा पत्र एवं पंजीयन राशि के साथ आवेदन निर्धारित समयावधि में संभाग के माध्यम से प्राप्त होने पर प्रत्येक प्रतिभागी को शिविर हेतु चयन पत्र /एस.एम.एस./ई-मेल द्वारा भेजा जायेगा । बिना चयन पत्र के शिविर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा । अतः निर्धारित अवधि में आवेदन अनिवार्य रूप से प्रेषित करें । |
| 12 | कैसे पहुंचे | | कटनी-बिलासपुर रेल खण्ड पर पेण्डारोड स्टेशन पहुंचे । पेण्डारोड से बस द्वारा अमरकंट शिविर स्थल पहुंचे । |

टीप :-1. जो मध्यप्रदेश स्टेट एडवेचर केम्प में सम्मिलित होंगे उन्हें ही नेशनल एडवेचर प्रोग्राम में भेजा जावेगा अन्य किसी को नहीं ।



राज्य सचिव


भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 7/4/2017

पृ0क्र0 / 113 / रा0मु0 / गति / एडवेचर / 2017

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 प्रमुख सचिव, खेलकूद विभाग, मध्यप्रदेश ।
- 2 संचालक, खेलकूद, यूवा कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश ।
- 3 संचालक, भारत स्काउट एवं गाइड, राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली ।
- 4 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर ।
- 5 आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश की ओर ।
- 6 संयुक्त संचालक लोक शिक्षण / संभा0उपायुक्त अनु0जा0 एवं आदि0विकास संभाग.....(म0प्र0) ।
- 7 जिला सचिव / संगठन / प्रशिक्षण आयुक्त (स्का0 / गा0), जिला संघ(म0प्र0) ।
- 8 वार्डन संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र अमरकंटक जिला अनुपपुर (म0प्र0) ।


राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश



भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय,
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल



Website: www.bsgmp.net E-mail: bsgmadhyapradesh@gmail.com Phone : 2661263, Fax: 2737446

स्टेट एडवेंचर प्रोग्राम हेतु प्रार्थना-पत्र
दिनांक.....सेतक

1. प्रतिभागी का नाम :.....
2. पिता का नाम :.....
3. वर्तमान पता :.....
:.....
:.....मोबाईल न.....
:दूरभाष न.....ई-मेल.....
4. जन्मतिथि :.....उम्र.....(जन्म प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
5. शैक्षणिक योग्यता :.....
स्कूल/कालेज का नाम :.....
:.....
6. अभिरुचि की जानकारी :.....
7. पूर्व में एडवेंचर में भाग लिया हो तो उसकी जानकारी
8. मैं शिविर में सम्मिलित होना चाहता/चाहती हूँ मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि
1. मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त जानकारी सही है ।
2. यदि किसी प्रकार की दुर्घटना/चोट अन्य प्रकार की हानि होने पर संस्था अथवा कार्यक्रम संचालन करने वाले किसी भी स्टाफ को पूर्ण या आंशिक जिम्मेदार नहीं ठहराऊँगा ।
3. शिविर का अनुशासन व संस्था के नियम जो स्टाफ या प्रशिक्षक स्टेट एडवेंचर सेंटर द्वारा मुझे बताये जायेंगे उसका मेरे द्वारा पालन किया जावेगा ।
8. पंजीयन शुल्क रुपये 100.00 ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....
संलग्न है।

हस्ताक्षर प्रतिभागी

स्थान:-

दिनांक:-

केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

रसीद नम्बर.....दिनांक.....राशि..... उपरोक्त शिविर हेतु
स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है ।

दिनांक:-

कार्यक्रम अधिकारी

अवयस्क प्रतिभागी हेतु घोषणा-पत्र

मैं मेरे पुत्र/पुत्री को उपरोक्त एडवेंचर कैंप में जो स्टेट एडवेंचर सेंटर भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा संचालित किया जा रहा है अपनी जिम्मेदारी पर भेज रहा हूँ और किसी भी शिविर संघटक को किसी भी दुर्घटना या अनहोनी के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराऊंगी ।

हस्ताक्षर
पिता/संरक्षक

स्थान:-
दिनांक:-

चिकित्सा प्रमाण-पत्र

नाम.....पिता का नाम.....

जन्मतिथि आयु रक्त ग्रुप.....

1. वर्तमान अथवा पूर्व की कोई बीमारी/पहचान.....

2. दुर्घटना/आपरेशन के बाद की वर्तमान में स्थिति

3. एलर्जी/दवा/भोजन के बारे में कोई विशेष जानकारी.....

4. यदि प्रतिभागी पीड़ित है -

1. इन्फेक्शन रोग हाँ/नहीं 2. चर्मरोग हाँ/नहीं

3. दिमागी रोग हाँ/नहीं 4. अन्य हाँ/नहीं

5. सुनने की तकलीफ है हाँ/नहीं 6. अस्थमा हाँ/नहीं

मैंने श्रीमती/श्री/कु.का

दिनांकको चिकित्सीय परीक्षण कर साहसिक कैंप में जाने हेतु

योग्य/अयोग्य पाया है ।

चिकित्सा अधिकारी
रजिस्ट्रेशन नम्बर व पद